



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

फरवरी 13, 2026

संख्या 7

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2025	2026		घट - बढ़	
	फरवरी 07	जनवरी 30	फरवरी 06	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3596653	3957219	3982406	25187	385753
1.1 संचलन में नोट	3596638	3957204	3982393	25189	385755
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	15	13	-2	-2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	43	0	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	878388	765515	750444	-15072	-127945
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7929	6993	6876	-117	-1053
2.6 अन्य बैंक	51272	41954	42119	165	-9154
2.7 अन्य	445176	891538	1030655	139117	585479
3 अन्य देयताएं	2124837	3234854	2996123	-238732	871285
कुल देयताएं / आस्तियां	7104399	8898216	8808766	-89450	1704367
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4793155	5202223	5195923	-6300	402769
2 सोना	631357	1266470	1119409	-147061	488052
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1317755	2063554	2111574	48020	793820
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	35454	13448	33996	20548	-1459
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	185420	136350	129545	-6805	-55875
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	117420	183645	185233	1587	67812
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	21774	30463	31023	560	9248

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	फरवरी 06, 2026 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6500663	717064	-156877	-6711	788522	48738	919937	78802
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5167999	570053	-5120	7661	317165	2495	410546	25946
1.2 स्वर्ण	1119409	123476	-147061	-14208	451247	45299	488052	51268
1.3 विशेष आहरण अधिकार	170627	18821	-3706	-132	15338	652	14308	943
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42628	4715	-991	-32	4773	291	7031	645

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसई मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

फरवरी 15, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 752476 करोड़	2026													
	फरवरी 01	फरवरी 02	फरवरी 03	फरवरी 04	फरवरी 05	फरवरी 06	फरवरी 07	फरवरी 08	फरवरी 09	फरवरी 10	फरवरी 11	फरवरी 12	फरवरी 13	फरवरी 14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	857640	797447	766204	779063	755736	756230	741637	754183						
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	114.0	106.0	101.8	103.5	100.4	100.5	98.6	100.2						

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जनवरी 31, 2026 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	336474	1830	-19890	27061	8862	61894
1.2 बैंकों से उधार	81053	612	-38256	-30923	-53610	-63119
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	42057	9165	-42997	12142	-41705	12602
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24881954	382442	1651346	2301353	2067420	2755382
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.6	8.1	10.2	10.3	12.5
2.1.1 मांग	3141415	150930	67060	443366	155898	630502
2.1.2 मीयादी	21740540	231513	1584286	1857987	1911522	2124880
2.2 उधारियां	908900	-12642	176037	-6348	143152	-45080
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1116119	56639	53493	54487	100007	125198
3 रिज़र्व बैंक से उधार	136073	103737	131382	-175393	16461	-218025
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	838641	42328	-46192	-125648	-43181	-136083
4.1 उपलब्ध नकदी	82350	3871	-4604	476	732	-2479
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	756290	38456	-41588	-126124	-43914	-133604
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	278787	-864	-1723	62986	-2419	82183
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	35468	3239	1508	9630	-3541	21605
5.3 बैंकों को अग्रिम	35428	3210	-9580	-4076	-3512	-3360
5.4 अन्य आस्तियां	74968	7059	-54760	7616	-39318	14305
6 निवेश	6816555	8587	528968	118627	661358	181028
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	8.7	1.8	11.1	2.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6816054	8587	529413	118756	661661	181032
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	500	0	-445	-129	-303	-3
7 बैंक ऋण	20475382	341292	1436315	2231410	1824887	2606903
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.7	8.7	12.2	11.4	14.6
7 क.1 खाद्य ऋण	89295	1126	33098	52764	10560	33117
7 क.2 खाद्येतर ऋण	20386087	340166	1403217	2178645	1814327	2573787
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	20065335	329334	1414967	2155483	1784747	2516065
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	98704	3313	11346	23741	20441	26891
7 ख.3 भुनाए गए	275478	8625	12057	54418	20178	66063
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13002	223	-841	-2120	-1004	-2569
7 ख.5 भुनाए गए	22864	-202	-1214	-113	525	454

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त पखवाड़ा #	2025			2026		
	जनवरी 24	जनवरी 15		जनवरी 31		
	1	2		3		
अनुपात						
नकदी-जमाराशि अनुपात		4.41		3.25		3.37
ऋण-जमाराशि अनुपात		80.76		82.18		82.29
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात		86.98		98.50		96.96
निवेश-जमाराशि अनुपात		29.99		27.79		27.40
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात		32.03		5.73		5.15
यद/समाप्त सप्ताह	2025	2026				
	फरवरी 07	जनवरी 09	जनवरी 16	जनवरी 23	जनवरी 30	फरवरी 06
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95
सांविधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत)	6.44	5.37	5.36	5.43	5.34	5.07
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.47	5.31	5.34	5.49	5.50	5.34
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.58	5.54	5.60	5.66	5.68	5.60
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.54	5.58	5.63	5.72	5.74	5.65
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.73	6.71	6.75	6.74	6.77	6.82
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	87.48	90.14	90.65	91.62	91.90	90.42
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.76	105.01	105.22	107.62	109.57	106.69
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	2.66	3.09	3.10	2.65	2.36	1.81
3-माह	2.63	3.38	3.51	3.09	2.83	2.51
6-माह	2.31	2.95	3.06	2.75	2.65	2.50

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 31*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29903539	400854	1.4	1753138	7.0	2616950	9.6	2275188	9.3	3210541	12.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3906775	16840	0.4	93326	2.7	276024	7.6	180196	5.4	403173	11.5
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3288801	151143	4.8	64824	2.5	448778	15.8	153883	6.2	637089	24.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22590697	232183	1.0	1585230	8.4	1888188	9.1	1917225	10.4	2157306	10.6
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	117267	688	0.6	9758	10.3	3960	3.5	23883	29.7	12973	12.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8944038	108448	1.2	384831	5.1	433212	5.1	778214	10.8	955636	12.0
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1806724	99410		-145320		298619		113534		758831	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7137313	9039	0.1	530151	8.3	134593	1.9	664680	10.6	196805	2.8
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	21312724	352190	1.7	1469174	8.5	2244595	11.8	1878782	11.2	2640718	14.1
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	17876	922		8354		-20370		17523		-4885	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	21294849	351268	1.7	1460820	8.5	2264966	11.9	1861260	11.1	2645603	14.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6943129	293995	4.4	181376	3.3	794602	12.9	473425	9.0	1194250	20.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	40222	165	0.4	2251	6.7	3591	9.8	2795	8.5	4540	12.7
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	7336574	353944	5.1	284495	5.2	859050	13.3	858029	17.5	1584602	27.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	3097683	258263	9.1	196863	11.0	950257	44.3	265615	15.4	1110686	55.9

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

^: 15 जनवरी 2026 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 31*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4923190	60380	1.2	21241	0.5	93948	1.9	158867	3.5	270503	5.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	4000947	20833	0.5	88517	2.5	276499	7.4	180771	5.3	400968	11.1
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	804977	38859	5.1	-77035	-7.5	-186512	-18.8	-45787	-4.6	-143438	-15.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	117267	688	0.6	9758	10.3	3960	3.5	23883	29.7	12973	12.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1806724	99410		-145320		298619		113534		758831	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1792273	104437		-159214		316813		105850		764832	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-182154	-74926		330232		-63139		12028		-466240	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-200030	-75848		321878		-42769		-5495		-461355	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6356081	293995	4.8	30940	0.6	805134	14.5	296125	6.0	1084059	20.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	40222			2251	6.7	3591	9.8	2795	8.5	4540	12.7
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	3097683	258263	9.1	196863	11.0	950257	44.3	265615	15.4	1110686	55.9

^: 15 जनवरी 2026 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुद्रत)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		7	8	
फरवरी 02, 2026	-	-	-	-	618	320805	-160	-	-	-320347
फरवरी 03, 2026	-	-	-	-	636	364627	-2167	-	-	-366158
फरवरी 04, 2026	-	-	-	-	786	342323	-1881	-	-	-343418
फरवरी 05, 2026	-	-	-	-	1018	357731	-482	-	-	-357195
फरवरी 06, 2026	-	-	-	-	732	503743	468	-	50000	-452543
फरवरी 07, 2026	-	-	-	-	75	394150	-	-	-	-394075
फरवरी 08, 2026	-	-	-	-	32	365647	-	-	-	-365615

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2025		2026	वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जनवरी	दिसंबर	जनवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	101.7	104.1	104.5	0.3	3.0	2.7
1.1 ग्रामीण	101.8	104.2	104.6	0.4	3.2	2.7
1.2 शहरी	101.5	104.0	104.3	0.3	2.8	2.8
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.2	148.2	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.0	157.0	..	..	..	..
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	189.7	194.2	..	..	..	..
3.2 ईंधन और बिजली	152.0	148.3	..	..	..	..
3.3 विनिर्मित उत्पाद	143.4	145.6	..	..	..	..

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 15, 2026	574586	40189	5.25 - 6.70
जनवरी 31, 2026	588699	64410	5.25 - 7.84

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 15, 2026	453839	26659	5.92 - 13.42
जनवरी 31, 2026	438787	41076	6.18 - 14.47

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	फरवरी 07, 2025	जनवरी 30, 2026	फरवरी 06, 2026
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	23493	28120	19656
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	968	9372	6308
3 त्रिपक्षीय रेपो	645390	1038585	805550
4 बाजार रेपो	568944	771848	581184
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	8450	17852	20688

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

फरवरी 06, 2026 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	11495	9936	79586	184886
182-दिवसीय	39116	69016	7264	206564
364-दिवसीय	60373	103049	40946	352246
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (फरवरी 06, 2026 तक)	2024-25 (फरवरी 07, 2025 तक)	2024-25	2025-26 (फरवरी 06, 2026 तक)	2024-25 (फरवरी 07, 2025 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1307000	1273697	1400697	911334	912275	1039275
2. राज्य सरकारें	899618	759240	1073310	612956	513062	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।